

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २ सन् २०२५

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-२) विधेयक, २०२५

वित्तीय वर्ष २०२५-२०२६ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश (क्रमांक-२) विनियोग अधिनियम, २०२५ है.

संक्षिप्त नाम.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये चार लाख इक्कीस हजार बत्तीस करोड़ नौ लाख अट्ठासी हजार होता है, उन विभिन्न प्रभागों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बावत वित्तीय वर्ष २०२५-२०२६ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

वित्तीय वर्ष २०२५-२०२६ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये ४२,१०,३२,०६,८८,००० का दिया जाना.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दिए जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

विनियोग.

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये)

(आंकड़े रुपये में)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
		विधान सभा द्वारा मतदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
		रुपये	रुपये	रुपये
भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व	०	२,८६,३६,३३,११,०००	२,८६,३६,३३,११,०००
	पूंजी	०	२,६६,८०,२२,०५,०००	२,६६,८०,२२,०५,०००
००१. सामान्य प्रशासन	राजस्व	६,३७,६६,५३,०००	१,३१,६८,७१,०००	१०,६६,६८,२४,०००
	पूंजी	१,०६,७१,२४,०००	३,२२,५१,०००	१,१२,६३,७५,०००
००२. विमानन	राजस्व	१,०६,४१,०५,०००	०	१,०६,४१,०५,०००
	पूंजी	१,००,१२,१३,०००	२,६०,००,००,०००	३,६०,१२,१३,०००

(१)	(२)	रुपये	(३)	रुपये
००३. गृह	राजस्व पूँजी	१,१६,६२,३४,१४,००० ८,८०,५६,३८,०००	४,०५,५०,००० ०	१,१६,६६,३६,६४,००० ८,८०,५६,३८,०००
००४. पर्यावरण	राजस्व	३८,७१,८६,०००	०	३८,७१,८६,०००
००५. जेल	राजस्व पूँजी	६,७०,०८,३८,००० १,२४,५८,८०,०००	७,००,००० ०	६,७०,१५,३८,००० १,२४,५८,८०,०००
००६. वित्त	राजस्व पूँजी	३,१३,२६,४६,०१,००० ४,२५,४६,२५,०००	६५,८८,३७,००० २,००,००,०००	३,१३,९२,३४,४४,००० ४,२७,४६,२५,०००
००७. वाणिज्यिक कर	राजस्व पूँजी	३०,००,४६,७६,००० ३८,०३,०५,०००	१३,००,००० ०	३०,००,६२,७६,००० ३८,०३,०५,०००
००८. भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	राजस्व पूँजी	१,०५,००,३७,०१,००० ४,५१,६८,४७,०००	३,८६,१६,००० ०	१,०५,०४,२६,२०,००० ४,५१,६८,४७,०००
००९. नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	राजस्व पूँजी	४,८०,७४,०१,००० ३,०००	५०,००० ०	४,८०,७४,५१,००० ३,०००
०१०. वन	राजस्व पूँजी	४३,०८,१८,६३,००० १०,१५,०५,०७,०००	३,००,००,००० ०	४३,११,१८,६३,००० १०,१५,०५,०७,०००
०११. औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	राजस्व पूँजी	१८,७६,३४,८७,००० १०,१५,११,१३,०००	५,००,००० ०	१८,७६,३६,८७,००० १०,१५,११,१३,०००
०१२. ऊर्जा	राजस्व पूँजी	६२,७२,१४,७७,००० ६२,५३,६८,११,०००	० ०	६२,७२,१४,७७,००० ६२,५३,६८,११,०००
०१३. किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व पूँजी	३,२२,७६,६२,१५,००० २८,२०,५३,०००	४५,००,००० ०	३,२२,८०,०७,१५,००० २८,२०,५३,०००

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
		रुपये	रुपये	रुपये	
०१४. पशुपालन एवं डेयरी					
	राजस्व	२३,१६,६६,४६,०००	१३,८८,०००	२३,२०,१३,३७,०००	
	पूँजी	१,६०,८५,०७,०००	०	१,६०,८५,०७,०००	
०१५. घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग					
	राजस्व	४६,०१,६४,०००	१,००,०००	४६,०२,६४,०००	
	पूँजी	१४,३२,००,०००	०	१४,३२,००,०००	
०१६. मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास					
	राजस्व	२,०२,३४,६८,०००	१५,००,०००	२,०२,४९,६८,०००	
	पूँजी	१,२६,६७,१०,०००	०	१,२६,६७,१०,०००	
०१७. सहकारिता					
	राजस्व	१०,३३,५८,३०,०००	७,०२,०००	१०,३३,६५,३२,०००	
	पूँजी	१०,०४,०१,०६,०००	०	१०,०४,०१,०६,०००	
०१८. श्रम					
	राजस्व	११,०६,७३,६३,०००	१७,००,०००	११,०६,९०,६३,०००	
	पूँजी	१,५२,६३,०००	०	१,५२,६३,०००	
०१९. लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा					
	राजस्व	१,८३,३८,६४,०५,०००	२०,५०,०००	१,८३,३९,१४,५५,०००	
	पूँजी	३८,६४,८३,१२,०००	०	३८,६४,८३,१२,०००	
०२०. लोक स्वास्थ्य यात्रिकी					
	राजस्व	१४,४२,५२,३३,०००	२,२५,००,०००	१४,४४,७७,३३,०००	
	पूँजी	१,८५,५८,२७,२४,०००	०	१,८५,५८,२७,२४,०००	
०२१. लोक सेवा प्रबंधन					
	राजस्व	६२,६६,०३,०००	२०,०००	६२,६६,२३,०००	
	पूँजी	१,००,००,०००	०	१,००,००,०००	
०२२. नगरीय विकास एवं आवास					
	राजस्व	१,०६,५०,२७,८६,०००	१४,७३,४०,१०,०००	१,२४,२३,६७,९६,०००	
	पूँजी	५७,७०,७७,७६,०००	५,५०,००,००,०००	६३,२०,७७,७६,०००	
०२३. जल संसाधन					
	राजस्व	१७,६६,१६,७५,०००	०	१७,६६,१६,७५,०००	
	पूँजी	७३,८७,०४,८३,०००	१३,००,००,०००	७४,००,०४,८३,०००	

(१)	(२)	(३)	(३)	(४)
		रुपये	रुपये	रुपये
०२४. लोक निर्माण कार्य				
	राजस्व	३०,०३,५१,४०,०००	१०,००,११,०००	३०,१३,५१,५१,०००
	पूँजी	१,०५,५४,२३,२२,०००	७५,००,०५,०००	१,०६,२९,२३,२७,०००
०२५. खनिज साधन				
	राजस्व	३,३५,१३,४१,०००	६,८०,०५,००,०००	१३,१५,१८,४१,०००
	पूँजी	११,१२,१०,०१,०००	०	११,१२,१०,०१,०००
०२६. संस्कृति				
	राजस्व	४,४३,६७,६६,०००	५,५०,०००	४,४४,०३,१६,०००
	पूँजी	६,५५,३४,३७,०००	०	६,५५,३४,३७,०००
०२७. स्कूल शिक्षा				
	राजस्व	३,२६,५३,३३,४१,०००	४५,००,०००	३,२६,५३,७८,४१,०००
	पूँजी	३६,२७,८५,८२,०००	०	३६,२७,८५,८२,०००
०२८. राज्य विधान मंडल				
	राजस्व	१,५६,७५,६६,०००	७५,६५,०००	१,५७,५१,६१,०००
	पूँजी	६३,१६,०००	०	६३,१६,०००
०२९. विधि और विधायी कार्य				
	राजस्व	२८,८६,५३,६८,०००	३,३१,८६,७०,०००	३२,२१,४३,६८,०००
	पूँजी	४,८५,१६,३६,०००	७,५४,०३,०००	४,९२,७३,४२,०००
०३०. ग्रामीण विकास				
	राजस्व	१,४६,४३,१५,५६,०००	६,८१,०००	१,४६,४३,२२,४०,०००
	पूँजी	४४,०७,१२,१६,०००	०	४४,०७,१२,१६,०००
०३१. योजना, आर्थिक और सांख्यिकी				
	राजस्व	३,६४,६५,८८,०००	२,००,०००	३,६४,६७,८८,०००
	पूँजी	६,०२,७३,१०,०००	०	६,०२,७३,१०,०००
०३२. जनसंपर्क				
	राजस्व	८,६३,८७,६७,०००	१,००,०००	८,६३,८८,६७,०००
	पूँजी	११,७०,०२,०००	०	११,७०,०२,०००
०३३. जनजातीय कार्य				
	राजस्व	१,१७,८३,८१,६६,०००	६,००,०००	१,१७,८३,८०,६६,०००
	पूँजी	३०,४६,८८,२६,०००	०	३०,४६,८८,२६,०००
०३४. सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण				
	राजस्व	४६,३३,३४,०३,०००	१,२०,०००	४६,३३,३५,२३,०००
	पूँजी	२०,५१,०६,०००	०	२०,५१,०६,०००

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
		रुपये	रुपये	रुपये
०३५. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम				
	राजस्व	१५,३८,७०,८३,०००	१,०१,०००	१५,३८,७१,८४,०००
	पूँजी	२,४७,२४,०६,०००	०	२,४७,२४,०६,०००
०३६. परिवहन				
	राजस्व	१,३६,२०,८७,०००	५०,००,०००	१,३६,७०,८७,०००
	पूँजी	१,०१,६५,००,०००	०	१,०१,६५,००,०००
०३७. पर्यटन				
	राजस्व	१,३८,७६,२३,०००	१,००,०००	१,३८,७७,२३,०००
	पूँजी	२,५१,४१,४६,०००	०	२,५१,४१,४६,०००
०३८. आयुष				
	राजस्व	१०,३६,४८,६६,०००	८,००,०००	१०,३६,५६,६६,०००
	पूँजी	८०,४६,८८,०००	०	८०,४६,८८,०००
०३९. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण.				
	राजस्व	१४,९६,५७,७४,०००	१,८५,०००	१४,९६,५९,५९,०००
	पूँजी	६,११,७८,०००	०	६,११,७८,०००
०४०. पंचायत				
	राजस्व	१,३२,७८,६६,६०,०००	५०,०००	१,३२,७८,७०,४०,०००
	पूँजी	३,०००	०	३,०००
०४१. प्रवासी भारतीय				
	राजस्व	२०,००,००,०००	०	२०,००,००,०००
०४२. भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास				
	राजस्व	१,७२,७४,१८,०००	५,०१,०००	१,७२,७९,१९,०००
	पूँजी	११,८०,५८,०००	०	११,८०,५८,०००
०४३. खेल और युवा कल्याण				
	राजस्व	२,३५,६०,२६,०००	१,००,०००	२,३५,६१,२६,०००
	पूँजी	४,२६,६२,२०,०००	०	४,२६,६२,२०,०००
०४४. उच्च शिक्षा				
	राजस्व	३४,२७,४६,१०,०००	३५,००,०००	३४,२७,८१,१०,०००
	पूँजी	६,१६,६६,६५,०००	१,०००	६,१६,६६,६६,०००

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
		रुपये	रुपये	रुपये
०४५. लोक परिसंपत्ति प्रबंधन				
	राजस्व	१२,८१,३७,०००	०	१२,८१,३७,०००
	पूँजी	४५,००,०३,०००	०	४५,००,०३,०००
०४६. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी				
	राजस्व	२,८६,२८,१७,०००	०	२,८६,२८,१७,०००
	पूँजी	२,०८,५१,०१,०००	०	२,०८,५१,०१,०००
०४७. तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार.				
	राजस्व	२०,१८,३२,६३,०००	१०,००,०००	२०,१८,४२,६३,०००
	पूँजी	७,२०,५३,७४,०००	०	७,२०,५३,७४,०००
०४८. नर्मदा घाटी विकास				
	राजस्व	७,७३,२२,५२,०००	०	७,७३,२२,५२,०००
	पूँजी	७८,६१,७७,७८,०००	१,५०,०१,०००	७८,६३,२७,७८,०००
०४९. अनुसूचित जाति कल्याण				
	राजस्व	२२,६१,६४,३६,०००	२,१५,०००	२२,६१,६६,५१,०००
	पूँजी	२,३७,४७,२४,०००	०	२,३७,४७,२४,०००
०५०. उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण				
	राजस्व	५,३३,५४,६७,०००	१,००,०००	५,३३,५५,६७,०००
	पूँजी	८,७८,७६,०००	०	८,७८,७६,०००
०५१. धार्मिक न्यास और धर्मस्व				
	राजस्व	१,२१,४४,४७,०००	५,००,०००	१,२१,४६,४७,०००
	पूँजी	१६,०२,०००	०	१६,०२,०००
०५२. आनंद				
	राजस्व	१५,३०,००,०००	०	१५,३०,००,०००
०५३. अल्प संख्यक कल्याण				
	राजस्व	१७,१४,५६,०००	१०,०००	१७,१४,६६,०००
	पूँजी	१,४०,१२,६२,०००	०	१,४०,१२,६२,०००
०५४. पिछड़ा वर्ग कल्याण				
	राजस्व	१५,४६,८४,४१,०००	१,००,०००	१५,४६,८५,४१,०००
	पूँजी	२०,१६,६२,०००	०	२०,१६,६२,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
०५५. महिला एवं बाल विकास				
	राजस्व	२,६२,४३,१७,५७,०००	३५,००,०००	२,६२,४३,५२,५७,०००
	पूँजी	५,५४,१४,१६,०००	०	५,५४,१४,१६,०००
०५६. कुटीर एवं ग्रामोद्योग				
	राजस्व	१,५६,६७,६१,०००	१,००,०००	१,५६,६८,६१,०००
	पूँजी	५२,७५,०००	०	५२,७५,०००
योग :				
{ राजस्व :		२७,१४,३३,६२,१३,०००	३,१६,४७,२४,६७,०००	३०,३०,८१,१६,८०,०००
{ पूँजी :		८,७०,५८,४४,४२,०००	३,०८,६२,४८,६६,०००	११,७९,५०,९३,०८,०००
वृहद्-योग :		३५,८४,९२,३६,५५,०००	६,२५,३६,७३,३३,०००	४२,१०,३२,०९,८८,०००

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०४(१) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है, जो वित्तीय वर्ष २०२५-२०२६ के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किये गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है।

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :
तारीख ६ मार्च, २०२५

जगदीश देवड़ा
भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.”

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.